



FAQs टर्म डिपॉजिट्स

- 1. शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा प्रदान किए गए फिक्स्ड डिपॉजिट्स के लाभ क्या हैं?**
शिवालिक बैंक अपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें प्रदान करता है, ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। यहाँ शॉर्ट-टर्म विकल्पों से लेकर लॉन्ग-टर्म निवेश तक का चुनाव करने का लचीलापन है, और ब्याज भुगतान के लिए कई विकल्प (मासिक, तिमाही, संचित) उपलब्ध हैं।
- 2. फिक्स्ड डिपॉजिट की न्यूनतम और अधिकतम अवधि क्या है?**
शिवालिक बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स के लिए लचीली अवधि प्रदान करता है, जो ७ दिनों से लेकर १० वर्षों तक हो सकती है।
- 3. मैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स की दरें कहाँ देख सकता हूँ?**
फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें बैंक की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं तथा ये हमारी शाखाओं में भी प्रदर्शित होती हैं। दरें देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें। [click here](#).
- 4. क्या शिवालिक बैंक टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स प्रदान करता है?**
हाँ, शिवालिक बैंक टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स प्रदान करता है, जो ५ वर्षों की लॉक-इन अवधि के साथ आते हैं। टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स के लिए अधिकतम निवेश राशि ₹ १,५०,००० प्रति वर्ष है और न्यूनतम अवधि पाँच वर्ष होती है।
- 5. क्या बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान करता है?**
हाँ, ६० वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर लागू नियमित ब्याज दरों के अतिरिक्त ०.२५% तक की अतिरिक्त ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं।
- 6. क्या शिवालिक बैंक में बुक किए गए फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर समय से पहले निकासी की सुविधा उपलब्ध है?**
हाँ, शिवालिक बैंक में बुक किए गए फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर समय से पहले निकासी की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि, यह सुविधा टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स तथा उन डिपॉजिट योजनाओं पर उपलब्ध नहीं है जिनमें समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं होती।
- 7. यदि फिक्स्ड डिपॉजिट को परिपक्वता से पहले निकाला जाए, तो ब्याज दर क्या होगी?**
ब्याज दर उस अवधि के अनुसार होगी, जिसके लिए डिपॉजिट बैंक में रखा गया है, न कि अनुबंधित दर पर, और समय से पहले निकासी पर १% का जुर्माना लागू होगा।
- 8. यदि फिक्स्ड डिपॉजिट को बुकिंग की तारीख से ७ दिनों के भीतर समय से पहले बंद किया जाए, तो लागू ब्याज दर क्या होगी?**
यदि डिपॉजिटर डिपॉजिट की राशि को बुकिंग की तारीख से ७ दिनों के भीतर निकालता है, तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 9. क्या फिक्स्ड डिपॉजिट की आंशिक निकासी अनुमत है?**
हाँ, फिक्स्ड डिपॉजिट की आंशिक निकासी अनुमत है, लेकिन निकाली गई राशि पर लागू समयपूर्व निकासी जुर्माना लिया जाएगा।